



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052023-246166
CG-DL-E-30052023-246166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2256]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2023/ज्येष्ठ 9, 1945

No. 2256]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2023/JYAISHTHA 9, 1945

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 मई, 2023

का.आ. 2353(अ).—भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड-ii में तारीख 18 मई, 2023 को, धारा 4 की उप-धारा (1) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की धारा 5क के तहत भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में, प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 2222(अ) तारीख 15 मई, 2023, के पृष्ठ 3 पर अंग्रेजी संस्करण में, क्रम सं.11 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि डाली जा रही है, अर्थात्: -

12	नगर निगम _____, कर्नाटक के प्रतिनिधि।	धारा 5 (1) (ड) के तहत सदस्य
----	---------------------------------------	-----------------------------

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा तारीख 18 मई, 2023 को जारी की गई शेष अधिसूचना अपरिवर्तित रहेगी।

[फा. सं. वी-11/18/2019-प्रशासन_6]

डॉ. ओ.पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 22nd May, 2023

S.O. 2353(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section(ii) dated the 18th May, 2023, vide S.O. 2222(E) dated the 15th May, 2023, in respect of reconstitution of the Animal Welfare Board of India under sub-section (1) of Section 4 and Section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 (59 of 1960), at page no. 3, in the English version, the following entry shall be inserted after Sl. No. 11, namely:-

12	Representative of Municipal Corporation of _____, Karnataka.	Member Under Section 5(1) (e)
----	--	-------------------------------

Besides the above, rest of Notification issued by the Government dated the 18th May, 2023, will remain unchanged.

[F. No. V-11/18/2019-Admin_6]

Dr. O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.